

Delton Cables Limited

Regd office : 'Delton House, 4801, Bharat Ram Road 24, Darya Ganj, New Delhi - 110002 (INDIA)

Phone : 91-11-23273907

E-mail : dcl@deltoncables.com, Website : www.deltoncables.com

CIN : L31300DL 1964PL C004255

AN ISO 9001-2008 COMPANY

To,

Date: May 16, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code: 504240

Sub: Submission of Copies of published Audited Financial Results

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose copies of Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024 published in MINT (English) and Haribhoomi (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Delton Cables Limited

Vikas Rawat

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above



Green hydrogen, chemicals to be Thermax's focus areas

The company is exploring partnerships for production and supply of electrolyzers, says CEO

Dipti Sharma
dipti.sharma@livemint.com
MUMBAI

With a strong push for green hydrogen production, electrolyzer manufacturers have come into sharper focus. Industrial machines maker Thermax sees green hydrogen, produced by splitting water molecules in an electrolyzer using green energy, as a key investment segment, significant revenue from which will likely start flowing in after about three years, its managing director and chief executive Ashish Bhandari said. The company is exploring partnerships to manufacture and supply electrolyzers, and working on this space with a long-run horizon extending to 2030 and beyond, he told *Mint*. The Pune-based company is also actively pursuing partnerships in other sectors, including its industrial product segment.



Ashish Bhandari, MD & CEO, Thermax.

still at a nascent stage, and analysts are cautious about how and when this trend would unfold for the industry.

The government has unveiled a production-linked incentive plan to bolster green hydrogen production and local electrolyzer manufacturing. Companies such as Reliance New Energy, Torrent Power, JSW Energy, CESC, UPL, and Welspun have won bids to set up green hydrogen manufacturing facilities in the country.

Aventus Capital, a financial services firm, estimates the green hydrogen ecosystem in India will provide a cumulative investment opportunity of about \$125 billion by 2030. "Given the 2030 ambitions of achieving around 5MMTPA (million metric tonnes per annum) green hydrogen capacity coupled with approximately 10MMTPA green ammonia capacity in India, we expect

the installation of over 30 GW of electrolyzer in India alone," said Prateek Jhavar, MD and head-infrastructure and real asset investment banking, Aventus Capital.

Though the current electrolyzer market globally is over-supplied, Jhavar believes that once green hydrogen plants start getting commissioned, there will be a marked rise in demand for electrolyzers. Higher manufacturing costs, though, have raised red flags. Jhavar expects electrolyzer costs to drop by over 50% from current international prices, along with an increase in efficiency by over 20%, by 2030.

In March, Thermax had partnered with Australia's Fortescue Future Industries to explore green hydrogen projects—including new manufacturing facilities—in India. Both companies were to explore opportunities to jointly

develop fully-integrated green hydrogen projects for commercial and industrial customers in India.

"So, the Fortescue partnership currently is on hold because we could not come to an agreement on some specific areas," Bhandari said. Consequently, both parties have decided to pursue their own paths for the time being. However, there's a possibility of re-engagement in the future, depending on the development of their respective technologies, he added.

Bhandari highlighted that Thermax will remain active in its traditional areas such as chemicals, apart from green energy. Electrolyzers will fall under the green solutions business for Thermax. Of the overall order book valued at ₹10,111 crore, only ₹791 crore worth of orders came from the green solutions business as of March 2024.

In Q4, the green solutions business order inflow tanked 93% year-on-year, which Bhandari termed as "just a temporary blip". He said that one of the reasons for the decline was the slowdown in the biomass-based build-operate business, which was influenced by both falling coal prices and a general slowdown possibly related to the ongoing national elections. The second factor was some order cancellations and reclassification in its First Energy Private Ltd (FEPL) business, which negatively impacted the January-March quarter.

"So as a net impact, we did not book as many orders as we would like," he said.

Even so, Bhandari pointed out that the pipeline remains promising, and he anticipates a robust rebound in the green solutions business during FY25. Meanwhile, analysts believe ordering in the green solutions business will fructify over the long term as the company scales up its investments.

SpiceJet ordered to return two leased jets

Krishna Yadav
krishna.yadav@livemint.com
NEW DELHI

The Delhi high court has ordered SpiceJet to return two leased Boeing aircraft and their engines to lessor TWC Aviation Capital Ltd by 31 May over unpaid dues. The court also told the struggling airline on Wednesday to hand over all records related to the use of the aircraft frames and engines.

The court noted that SpiceJet had damaged TWC's assets by separating the engines from the planes and using them in other aircraft. Referring to an inspection report provided by TWC Aviation, the court underlined the need to prevent further damage to the assets.

SpiceJet currently owes \$14 million to TWC, which rejected the airline's offer to pay \$435,000 a month to clear its dues. TWC urged the high court to enforce a previous order by the High Court of Justice in England and Wales that directed SpiceJet to return the aircraft and engines for failing to pay its rental dues.

TWC had leased two Boeing aircraft and three engines to SpiceJet for 12 months in 2019, but SpiceJet defaulted on its \$180,000 monthly rent. Agreements between the two companies were amended during covid, but SpiceJet allegedly violated the terms. TWC Aviation Capital then filed a lawsuit in the High Court of Justice in England and Wales, seeking to reclaim its assets. In March, that court issued an interim injunction against SpiceJet, prohibiting it from using TWC's engines on other aircraft. SpiceJet challenged the injunction, but the court ruled in TWC's favour.

MOIL LIMITED					
(A Government of India Enterprise)					
Molli Bhawan, 1-A, Katol Road, Nagpur-440013					
Website: www.moil.nic.in E-mail: compliance@moil.nic.in					
Telefax: 0712-2591661 CIN: L99999MH1992GO1012398					
Extracts of audited financial results for the quarter and year ended 31 st March, 2024 (₹ in lakhs)					
Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	41587.55	42806.34	144942.45	134164.60
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	11296.12	12103.41	38700.15	33163.22
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	11296.12	12103.41	38700.15	33444.88
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	9114.89	8094.79	29334.07	25059.04
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	11179.25	6838.95	29401.57	22489.65
6	Equity share capital (Face value of ₹10 each)	20348.52	20348.52	20348.52	20348.52
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet			224958.74	204083.21
8	Earnings per share from continuing operations (Face value of ₹10 each)				
	Basic	4.48	3.98	14.42	12.31
	Diluted	4.48	3.98	14.42	12.31

Notes:
(1) The above results, reviewed by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 15th May, 2024 and have been reviewed by Statutory Auditors of the company. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The audited accounts are subject to Supplementary Audit by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and financial year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Financial results in detailed format are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.moil.nic.in).
(3) The Board has recommended final dividend of ₹ 2.55 per equity share for the financial year 2023-24 subject to the approval of shareholders at the ensuing Annual General meeting of the Company in addition to ₹ 3.50 per equity share already paid as interim dividend.
(4) Previous period's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to make them comparable. The figures for the quarter ended 31st March 2024/2023 are balancing figures between the audited figures of full year and reviewed figures upto 31st December 2023/2022.

For MOIL Limited
Sd/-
Ajit Kumar Saxena
Chairman & Managing Director
DIN : 08588419

Place : New Delhi
Date : 15.05.2024
(ह एक काम, देश के नाम) (MOIL-Adding Strength to Steel)

OFFICE OF THE COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION, GWALIOR
Narayan Krishan Shejwalkar Bhawan, Near Taran Puskar, City Centre, Gwalior (M.P.)
Tel: 0751-2438300, 4080352, Fax: 0751-2438249

GMC/245/23-24/1/Vidhan Sabha Gwalior Purv/2024-25/ Gwalior, Dated :

लसम्भके RO क्रमांक 211 **Notice Inviting Tender (Second Call)** दिनांक 14-05-2024

on behalf of Gwalior Municipal Corporation (GMC), Madhya Pradesh, online Notice Inviting Tender 2024_UAD_334517_2 has been uploaded on website <http://mpntenders.gov.in> to invite Percentage Rate bids from registered Contractors and Firms of repute, fulfilling eligibility criteria.

Name of Works	Probable amount of Contract (In Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs.)	Cost of Bid Document (In Rs.)	Contract Period
Survey, Design, Preparation of Drawings, providing, laying and commissioning of sewerage network in different wards of Purve Vidhan Sabha, Gwalior Municipal Corporation including condition assessment of existing sewerage network and operation and maintenance of sewerage network to be laid under this contract during the defect liability period of one (01) year.	15715848.20	78579.24	12500	6 months including rainy season

NIT with all details of works to be executed and provisions of contract can be viewed on website <http://mpntenders.gov.in> and bid document can be purchased from 10:30 AM dated 10.05.2024 up to 5:30 PM dated 24.05.2024. The bid submission date is 24.05.2024.

Executive Engineer,
Gwalior Municipal Corporation

Delton Cables Limited
Regd. Office: Delton House, 4801, Bharat Ram Road 24, Daryaganj, New Delhi -110002
Website : www.deltoncables.com, E-mail: cs@deltoncables.com, CIN: L31300DL1964PLC004255

Statement of Audited Financial Results For The Quarter And Year Ended March 31, 2024 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations (net)	13,178.32	8,050.18	40,085.97
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	350.69	98.52	1,178.99
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	833.33	98.60	1,777.42
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	631.17	(432.85)	1,465.65
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	624.03	(429.06)	1,461.50
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	864.00	864.00	864.00
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 10/- each)			
	(a) Basic (Rs.)	7.31	(5.01)	16.96
	(b) Diluted (Rs.)	7.31	(5.01)	16.96

Notes:
1) The above is an extract of the detailed format of audited Quarterly/Annual Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on Company's website (www.deltoncables.com).
2) The above result have been prepared in accordance with principle and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of Companies Act, 2013.
3) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 15, 2024.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Vivek Gupta
(Managing Director)
(DIN : 00035916)

Place : Faridabad
Date : 15, May, 2024

CENTRAL RAILWAY
E-TENDER NOTICE

Open Tender Notice No: DRMWNGP-43-2024 OF 10.05.2024. 1) Name of work: Proposed recruitment of shoulder and crib ballast and ancillary works for SBCM/FRM working in Nagpur Division. Approximate Cost: Rs. 4,08,73,565.89. Earnest Money: Rs. 3,54,400.00. 2) Name of work: Itarsi-Construction of 12 bedded barrack for RPF staff at Itarsi output/Nagpur Division. Approximate Cost: Rs. 1,36,04,276.54. Earnest Money: Rs. 2,18,000.00. Date & time of closing of tender: 03.06.2024 at 15:00 hrs. Complete details and instructions for e-tendering and on line participation for the above work is available on Railway's website www.ireps.gov.in

Divisional Railway Manager (Works)
C.R., Nagpur
Akar/04/59
Unauthorized crossing of railway line is a punishable offense

JSL JINDAL STAINLESS

EXTRACTS OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024 (₹ in crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
		31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
		Audited (Refer note 3)	Unaudited	Audited (Refer note 3)	Audited	Audited
1	Total income from operations	9,454.02	9,127.45	9,765.08	38,562.47	35,697.03
2	EBITDA*	1,035.18	1,246.17	1,143.93	4,704.29	3,586.09
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	703.55	916.83	957.24	3,493.32	2,773.97
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	701.89	916.83	957.24	3,592.47	2,773.97
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	500.65	691.22	716.29	2,693.48	2,083.83
6	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	491.81	693.56	699.93	2,685.64	2,077.44
7	Paid up equity share capital (face value of ₹2/- each)	164.69	164.69	164.69	164.69	164.69
8	Other equity	14,193.21	13,691.95	11,766.49	14,193.21	11,766.49
9	Securities premium account	4,102.26	4,102.26	4,102.26	4,102.26	4,102.26
10	Net worth	14,357.90	13,856.64	11,931.18	14,357.90	11,931.18
11	Paid up debt capital #	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00
12	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-	-
13	Debt equity ratio	0.41	0.46	0.32	0.41	0.32
14	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each)					
	a) Basic	6.08	8.41	9.30	32.95	25.68
	b) Diluted	6.07	8.41	9.30	32.94	25.68
	(EPS for the period not annualised)					
15	Capital redemption reserve	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
16	Debt redemption reserve #	-	-	-	-	-
17	Debt service coverage ratio	4.24	6.52	12.29	5.95	8.63
18	Interest service coverage ratio	7.11	8.81	14.25	8.79	11.44

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income
Listed debt

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)]. The full format of the standalone and consolidated quarterly/yearly financial results along with other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) are available on the Company's website: (www.jindalstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).
2 Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
	31 March 2024	31 December 2023	31 March 2023	31 March 2024	31 March 2023
	Audited (Refer note 3)	Unaudited	Audited (Refer note 3)	Audited	Audited
Total income from operations	9,520.74	9,087.57	9,444.31	38,356.00	35,030.35
EBITDA*	827.29	1,020.80	1,097.00	4,035.71	3,566.93
Profit before tax (before exceptional items)	604.27	974.94	885.99	3,296.51	2,703.52
Profit before tax (after exceptional items)	635.51	974.94	885.99	3,327.75	2,703.52
Profit after tax	476.36	779.27	659.15	2,530.69	2,014.00

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income

3 (a) The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures upto the third quarter of year ended 31 March 2024.
(b) The figures for the quarter ended 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date restated figures upto the third quarter of year ended 31 March 2023 after giving effect to the Composite Scheme of arrangement amongst the Company, Jindal Stainless (Hisar) Limited (JSHL), JSL Lifestyle Limited (JSLLL), Jindal Lifestyle Limited (JILL), JSL Media Limited (JML) and Jindal Stainless Corporate Management Services Private Limited (JSCMS) ("Scheme") having appointed date of 01 April 2020, which was approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("Hon'ble NCLT") vide its order dated 02 February 2023 and has been made effective from 02 March 2023.
4 The Board of Directors in its meeting held on 15 May 2024 has recommended a final dividend @ 100% i.e. ₹2 per equity share (face value of ₹2 per equity share), aggregating to ₹164.69 crores for the financial year ended 31 March 2024 subject to approval of shareholders. This is in addition to the interim dividend of ₹1 per equity share (face value of ₹2 per equity share), paid for the year by the Company.

By Order of the Board of Directors
For Jindal Stainless Limited
Anurag Mantri
Executive Director & Group CFO

Place: New Delhi
Date: 15 May 2024

(CIN: L26922HR1980PLC010901)
Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) | Ph. No.: (01662) 222471-83 | Fax No.: (01662) 220499
Email Id. for Investors: investorcare@jindalstainless.com | Website: www.jindalstainless.com

UNLOCK
— the Power to —
Think Ahead. Think Growth.

Explore powerful narratives and expert analysis with **Mint Specials**

Scan Now To Download The App

